

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट सराहनीय कार्य दिनांक 20.09.2022

थाना गढ़िया रंगीन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

***गांव-गांव जाकर धोखाधड़ी करके फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले 03 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, फर्जी आधार कार्ड बनाने सम्बन्धी फर्जी प्रपत्र, मोहरे, उपकरण, 03 अदद एण्ड्रायड मोबाइल, 6020 रुपये व 01 कार आदि**

बरामद ।*

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुक्रम में, श्री संजीव कुमार बाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शाहजहाँपुर के पर्यवेक्षण व श्री बी0एस0 वीर कुमार, क्षेत्राधिकारी तिलहर के कुशल निर्देशन में थाना गढ़िया रंगीन पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली ।

दिनांक 20.09.2022 को थाना गढ़िया रंगीन पुलिस टीम थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने व रोकथाम जुर्म जरायम , तलाश वांछित अपराधी में भ्रमणशील थी तो मुखबिर की सूचना पर **ग्राम पृथ्वीपुर तिराहा पर** समय करीब 03.35 बजे अभियुक्तगण 1. नवीन शर्मा 2. तिलकराज उर्फ विशाल 3. अखिलेश वर्मा को एक अदद Maruti Suzuki Alto 800 Ixi व फर्जी आधार कार्ड बनाने सम्बन्धी फर्जी उपकरण व 03 अदद एण्ड्रायड मोबाइल, फर्जी मोहरे व 6020 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया तथा मौके से अभियुक्त खुर्शीद भागने में सफल रहा । इस सम्बन्ध में थाना गढ़िया रंगीन पर मु0अ0सं0 425/2022 धारा 420/467/468/471/482 IPC बनाम उपरोक्त पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा । फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

1. नवीन शर्मा पुत्र अभिलाख निवासी ग्राम याकूबपुर थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर
2. तिलकराज उर्फ विशाल पुत्र रामबहादुर निवासी ग्राम लहराबर थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर
3. अखिलेश वर्मा पुत्र जयराम निवासी ग्राम नूरपुर करई थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर

फरार अभियुक्त का विवरण-

- 1-खुर्शीद पुत्र इफ्तियार खान नि0 ग्राम याकूबपुर थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण:

1. फर्जी आधार कार्ड बनाने सम्बन्धी उपकरण - प्रिन्टर, की बोर्ड, माउस, मानीटर, आई स्केन , फिगर प्रिन्ट, स्केनर, पावर बोर्ड, फ्लैश लाइट ,वैव कैमरा, हब मोबाइल, चार्जर पावर केबल , प्रिन्टर केबल GPS डिवाइस CPU, इनवेटर व बैटरा
2. फर्जी कुल 07 अदद मोहरे व 06 अदद आधार कार्ड बने हुए प्रिन्टर से निकली हुई रसीदे व आधार कार्ड बनाने सम्बन्धी भरे हुए 13 फार्म व 01 जन्म प्रमाण पत्र form व अदद आखे फोटो पेपर, 38 ब्लैक form इंकपैड . 01 अदद नीला पेन व एक अदद लाल रंग का पेन
- 3 . 03 मोबाइल फोन जिसमें 02 अदद VIVO कम्पनी के एण्ड्रायड मोबाइल तथा 01 अदद अदद मोबाइल TECNO MADE INDIA - एण्ड्रायड व बरामद कुल 6020 रुपये/-
4. एक अदद Maruti Suzuki alto 800 Ixi जिसका चैसिस नं0 MA3EUA61500215767 तथा इंजन नम्बर F88N5003739 है मारुती सुजुकी सफेद रंग

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1.मु0अ0सं0 425/2022 धारा 420/467/468/471/482 IPC थाना गढ़िया रंगीन

पूछताछ आख्या:-

अभियुक्तगणों द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि हम लोग वर्ष 2019 से विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्यों की व ग्राम पंचायत अधिकारी की फर्जी मोहरे बनवाकर अपने पास रखे हुए हैं तथा आधार कार्ड फर्जी बनाने के लिए कम्प्यूटर व अन्य उपकरण अपने पास रखे हैं गांव-गांव में जाकर आधार कार्ड बनाने सम्बन्धी उपकरण इसी आल्टो गाडी से ले जाकर फर्जी फार्म भरकर उन पर विभिन्न स्कूलों व ग्राम पंचायत अधिकारी की फर्जी मोहरे लगाकर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर स्कैनर से कम्प्यूटर सिस्टम पर अपलोड करके जो रसीद निकलती है उस पर भी हम लोगो द्वारा जिसका आधार कार्ड बनाया जाता है उसका भी फर्जी हस्ताक्षर हम लोगो द्वारा बनाया जाता है तथा रसीद पर भी हस्ताक्षर हम लोग अपने फर्जी बनाकर आधार कार्ड बनवाने वालों को दी जाती है तथा जो आल्टो गाडी हम लोगो के पास में है उस पर भी फर्जी नं0 प्लेट लगी हुई है हम लोग फर्जी नं0 प्लेट लगाकर गांव गांव फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए जाते हैं जिससे हम लोग पकड़े ना जा सके फर्जी आधार कार्ड बनाने से काफी कमाई होती है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. SO सुन्दरलाल वर्मा थाना गढ़िया रंगीन शाह0
2. SI श्री प्रमोद कुमार थाना गढ़िया रंगीन शाह0
3. हे0का0 255 सहदेव सिंह थाना गढ़िया रंगीन शाह0
4. का0 1826 गौरव शर्मा थाना गढ़िया रंगीन शाह0
5. का0 2767 शिव कुमार थाना गढ़िया रंगीन शाह0
6. का0 2511 अभिषेक सैनी थाना गढ़िया रंगीन शाह0
7. का0 1848 देवेन्द्र थाना गढ़िया रंगीन शाह0